



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 112]
No. 112]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 1977 आषाढ़ 16, 1899
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 1977/ASADHA 16, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 7th July, 1977

SUBJECT.—Import Policy for Registered Exporters for the period April 1977—March 1978
(Amendment/Errata)

No. 45 ITC (PN)/77.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Policy Book—Volume II) for the period April 1977—March 1978 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 21-ITC (PN)/77 dated the 27th April, 1977.

2. The following corrections/amendments may be made at the appropriate places indicated below—

Page No. of the Policy Book (Vol. II)	Reference	Correction/Amendment
(1)	(2)	(3)
25	Section I, Part B, Explanatory Notes	For para (3), the following shall be substituted — “(3) If an item is covered by the export-linked-import list referred to at (b) above, it can be imported only in accordance with the policy applicable to that list, irrespective of the fact that the same item may be appearing in the banned list referred to at (a) above or in the restricted list referred to at (c) above.”

(1)

(2)

(3)

26-27 Section I,
Part B,
Annexure I, Part I

(i) The description of the item appearing at Sl. No. 12 may be corrected to read as under:—

"12 Chemicals, not specified in Export-Import-Linked list, Annexure II, and not permissible to Actual Users in Appendix 28 of the Policy Book (Vol. I)."

(ii) The description of the item at Sl. No. 16 may be corrected to read as under:—

"16. Dyes, Pigment and Dyes Intermediates not specified in Export-Import-Linked list, Annexure II, and not permissible to Actual Users in Appendix 24 of the Policy Book (Vol. I)."

(iii) The existing item "Plasticizers" appearing at Sl. No. 40 may be deleted.

38 Section II,
A. 17,
Col. 4

The following may be added after the existing remark (i):—

"It is clarified that if the exported silver brazing alloy in the form of rods/sticks cut to sizes contains more than 50% silver by weight, no REP benefit will be admissible thereon."

38 Section II,
A. 22,
Col. 4

The following may be added after the existing remark (i):—

"It is clarified that if the exported Electrical contacts made of silver alloy or silver/copper bimetal (used as components in electric control gear and switch gear) contain 50% or more of silver by weight, no REP benefits will be admissible thereon."

38 Section II,
A. 28,
Col. 4

The following remark may be added :—

"(i) For the purpose of calculating the REP benefits against exports of micro switches with silver/silver alloy contacts, the licensing authority will exclude the value of silver from the f.o.b. value of exports will only be eligible for REP benefits, if other wise admissible under the policy. Applications should be accompanied by a Chartered Accountant Certificate indicating the quantity of silver content and its value used in the export product based on which the licensing authority will work out the REP entitlement after excluding the value of silver. It is clarified that if the exported Micro Switches with silver/silver alloy contacts contain more than 50% silver by weight, no REP benefits will be admissible thereon."

61 Section II,
B. 2. 2.&B. 2. 3,
Cols. 1—3

The existing entries may be deemed to have been corrected to read as under, with effect from 1st April, 1977.—

Sl. No.	Export Product	Import Replenishment Percentage
B. 2. 2.	Other organic chemicals, not elsewhere specified.	20%
B. 2. 3	Ethanolamines	58%

3. The following items may be deemed to have been inserted alphabetically in Section IV—Classification of Export Products of the Import Policy for Registered Exporters for 1977-78:—

A. Engineering Goods

Amber Charkha	A.102
Baling Press	A.64
Belt Conveyers and Elevators for mechanisation (Grain).	A.64
Bicycle Seats (Saddles) with steel frame but with or without springs.	A.82
Cable Glands (Non-ferrous)	A.17
Cream separator (suitable for domestic-cum-commercial purposes for separating cream from milk)	A.84.1
Flame Proof Haulages (used in coal mines for transportation of coal from underground)	A.64
Front end loaders (wheeled type)	A.60
Golf Trolley-cum-bag	A.102
Grinding machine (used for grinding, buffing, polishing or lapping).	A.46
Pedal Master bicycle	A.82
Seed Dryer / Batch Dryer	A.64
Telecommunication Cables, PVC insulated with copper conductors.	A.26

B. Chemicals and allied Products

Eye Crayon (Eye Brow Pencils)	B.20
---	------

H. Handicrafts

Flower Pot Hangers/Hanging Ropes for Flower Pots (made out of jute ropes, metal rings and wooden beads).	H.8
--	-----

4. The existing classifications of the following items appearing at pages 'X' and 'xiii' in Section IV of the Import Policy for Registered Exporters for 1977-78 may be deemed to have been corrected to read as under, with effect from 1st April, 1977:—

G. I. Fry Pan of GR Sheets.	A.7(ii)
Galvanised coach screws.	A.7(iii)
Galvanised Steel Windows.	A.7(ii)
Galvanised Tension bars, truss rods, top rods and gate rods	A.7(ii)
Insulated Power Cables with copper conductor of 600/1000 Volts and above (1.0 KV and above).	A.26
Insulated Electric Cables Flexible and Cords with copper conductor below 600/1000 Volts (less than 1.0 KV)	A.26

A. S. GILL,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1977

विषय.—अप्रैल, 1977—मार्च, 1978 की अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों की आयात नीति (संशोधन, शुद्धि)।

सं० 45 आई टी सी (पी एन), '77.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 21—आई टी सी (पी एन)/77 दिनांक 27 अप्रैल, 1977 के अन्तर्गत अप्रैल, 1977—मार्च 1978 के लिए प्रकाशित आयात व्यापार नियंत्रण नीति (नीति पु० बा० 2) में निहित पंजीकृत निर्यातकों की नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. निम्नलिखित शुद्धियाँ/संशोधन नीचे उल्लिखित उचित स्थानों पर किए जाएं:—

नीति पु०

(बा० 2) की संदर्भ

शुद्धियाँ/संशोधन

पृष्ठ सं०

(1)	(2)	(3)
25	खंड 1, पैरा (3) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:— भाग बी, “ (3) उपर्युक्त ‘बी’ में संकेतित निर्यात से सम्बन्धित आयात व्याख्यात्मक सूची में यदि कोई मद आती है तो उस के लिए लागू नीति के टिप्पणी अनुसार उस मद को आयात कर सकते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि ऊपर ‘ए’ में उल्लिखित निषेध सूची में या ऊपर ‘सी’ में उल्लिखित प्रतिबंधित सूची में वह मद आती है। ”	
26-27	खंड 1, (i) क्रम सख्या 12 पर आई हुई मदों की टिप्पणी को संशो- भाग ‘बी’, धित कर निम्न प्रकार से पढ़ा जाए — अनुबन्ध 1, “12. रसायन, जो निर्यात से सम्बन्धित आयात सूची के अनुबन्ध 2 भाग 1 में निर्दिष्ट नहीं है और नीति पुस्तक (बा० 1) के परिशिष्ट 28 के वास्तविक उपयोक्ता के लिए अनुमेष नहीं है। ” (ii) क्रम सं० 16 पर की मदों की टिप्पणी को संशोधित कर निम्न प्रकार से पढ़ा जाए — “16. रंग, रजक और रंग मध्यस्थ जो निर्यात से सम्बन्धित आयात सूची, के अनुबन्ध 2 में निर्दिष्ट नहीं है और नीति पुस्तक (बा० 1) के परिशिष्ट 24 के वास्तविक उपयोगिता को अनुमेष नहीं है। ”	

(1)

(2)

(3)

(iii) क्रम संख्या 40 पर आने वाली वर्तमान मद "प्लास्टिराइजर्स" को हटा दिया जाए।

- 58 खण्ड 2, वर्तमान टिप्पणी (1) के पश्चात् निम्नलिखित को शामिल किया
 ए० 17, जाए :—
 कालम 4 "यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि साइजो में काटने के लिए राइ/स्टीक के रूप में निर्यातित रजत पीतल मिश्रधातु में वजन में 50 प्रतिशत से अधिक चादी शामिल हो तो उन्हें कोई आर० ई० पी० लाभ नहीं दिया जाएगा।"
- 58 खण्ड 2, वर्तमान टिप्पणी (1) के पश्चात् निम्नलिखित को शामिल
 ए० 22, किया जाए :—
 कालम 4 "यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि निर्यातित विशुद्धीय संयोग में जो चादी मिश्रधातु या चांदी/ताम्र द्विधातु से बने हो। (विशुद्धीय नियंत्रण गियर और स्विच गियर में संघटकों के रूप में प्रयोग किया गया हो) और वजन में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी शामिल हो, तो उनको कोई आर० ई० पी० लाभ नहीं दिए जाएंगे।"
- 58 खण्ड 2, निम्नलिखित टिप्पणियों को शामिल किया जाए :—
 ए० 28 "चांदी चांदी मिश्र धातु संयोग के साथ माइक्रो स्विचिस के
 कालम 4 निर्यात के मद्दे आर० ई० पी० लाभों की संगणना के उद्देश्य के लिए लाइसेंस प्राधिकारी निर्यात उत्पाद के जहाज पर निशुल्क मूल्य से चांदी के मूल्य को निकाल देंगे। निर्यात के शेष जहाज पर निशुल्क मूल्य के लिए आर० ई० पी० लाभ दिए जाएंगे यदि नीति के अन्तर्गत अनुमेय हुआ तो आवेदन पत्र के साथ सनदी लेखापाल का प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। जिसमें निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त चांदी की मात्रा और उसका मूल्य सूचित होना चाहिए। उसके आधार पर लाइसेंस प्राधिकारी, चांदी का मूल्य निकालने के बाव आर० ई० पी० हकवारी की संगणना करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि चांदी/चांदी मिश्र धातु संयोग के साथ निर्यातित माइक्रो स्विचिस के भार में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी शामिल है तो, उन्हें कोई भी आर० ई० पी० लाभ नहीं दिए जाएंगे।"
- 61 भाग 2, वर्तमान प्रविष्टियां 1 अप्रैल, 1977 से निम्नलिखित रूप में
 बी० 2.2 पढ़ी जाने के लिए संशोधित की गई समझी जाएं :—
 एवं बी०
 2.3, स्तम्भ
 1—3

क्रम सं०	निर्यात उत्पाद	आयात संपूर्ति प्रतिशत
बी० 2.2	अन्यत्र विनिर्दिष्ट न किये गये अन्य कार्बनिक रसायन ।	20 प्रतिशत
बी० 2.3	ऐथेनोलामाइन्स	58 प्रतिशत

3. निम्नलिखित मदों को 1977-78 के लिए पंजीकृत निर्यातको के लिए आयात नीति के भाग IV में निर्यात उत्पादों के वर्गीकरण में वर्णानुक्रमानुसार प्रविष्ट किया गया समझा जाए :—

ए. इंजीनियरी भाग

अम्बर चरखा	ए० 102
बेलिंग प्रेस	ए० 64
बेल्ट कन्वेयर्स एवं मशीनीकरण के लिए उत्थापन यंत्र (अनाज) ।	ए० 64
स्प्रिंग सहित या बिना स्प्रिंग के इस्पात के ढाचे वाली सार्ईकिल की गदियां (जीन) ।	ए० 82
केबल गलैन्ड्स (अलोह युक्त)	ए० 17
क्रीम अलग करने वाला यन्त्र (दूध से क्रीम अलग करने के लिए घरेलू-व-वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयुक्त) ।	ए० 84.1
अग्नि अभ्रंश कर्षण यन्त्र कोयले के खान में (भूमि के नीचे से कोयले को ऊपर लाने के लिए प्रयुक्त होने वाली)	ए० 64
फ्रण्ट एण्ड लोडर्स (पहिये वाली)	ए० 60
गोल्फ ड्राली - व- बैग	ए० 102
पीसने की मशीन (पीसने, चमकाने, पालिश करने या परिमार्जित करने के लिए प्रयोग होने वाली)	ए० 46
पेडल मास्टर ब्राइसाइकिल	ए० 82
बीज सुखाने वाला/ धान सुखाने वाला	ए० 64
तांबा-संवाहक के साथ पी०बी०सी० विद्युत् रोधि दूर संचार के तार ।	ए० 26

बी. रसायन एवं सम्बंधित उत्पाद

ग्राई के योन (ग्राई ओ पेंसिल) एच० हस्तशिल्प	बी० 20
फलदान टांगने वाले सामान / फूलदान के लिए लटकने वाले रस्से (जूट की रस्सी, धातु के छल्ले और लकड़ी के मनके) ।	ए० 8

4. 1977-78 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात-नीति के भाग IV में पृष्ठ 'बस' एवं 'तेरह' में आई हुई निम्नलिखित मदों के वर्तमान वर्गीकरण को 1 अप्रैल, 1977 से निम्नलिखित रूप से पढ़े जाने के लिए संशोधन किया गया समझा जाए :—

जी० आर० शीट का जी आई तलने का पात्र	ए० 7(ii)
जस्तीकृत चौसिरा पेच	ए० 7(ii)
जस्तीकृत इस्पात का रोशनदान	ए० 7(ii)
जस्तीकृत टेनशन बार्स, ट्रेस राइस, टाप राइस और गेट राइस	ए० 7(ii)
600/1000 वोल्टस और अधिक 1.0 कि० वो० और अधिक के तांबा संवाहक के साथ विद्युतरोधी पावर तार	ए० 26
600/1000 वोल्ट्स से नीचे (1.0 कि० वो० से कम) के तांबा संवाहक के साथ विद्युतरुद्ध तार फ्लेक्सिबल एवं कोर्ड्स	ए० 26

ए० एस० गिल,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

